

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †3037
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पर्यटन हेतु नए दिशानिर्देश
†3037. श्री विजय कुमार दुबे:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में वन और वन्यजीव क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पर्यटन के लिए नए दिशानिर्देश अनुमोदित किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या अधिसूचित वन और वन्यजीव आरक्षित क्षेत्रों में अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए पारिस्थितिकी-पर्यटन के मानदंडों को आसान बनाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा यह बताया गया है कि एमओईएफसीसी ने अक्टूबर, 2021 में 'वन और वन्यजीव क्षेत्रों में स्थायी ईको पर्यटन संबंधी दिशानिर्देश 2021' जारी किए हैं ।

दिशानिर्देशों में वन्यजीव और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए एक सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है । इन दिशानिर्देशों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया गया है और स्थानीय समुदायों को 'आत्मनिर्भर' बनाने में सहायता करने के लिए उचित वित्तीय मूल्य श्रृंखला के माध्यम से स्वदेशी सामग्री के स्थायी उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है और इसमें स्थानीय समुदायों के साथ लाभों की समान हिस्सेदारी के साथ-साथ ईको पर्यटन के विकास में हितधारकों के बीच सहभागिता को बढ़ावा दिया गया है ।

इसके साथ दिशानिर्देशों में प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में पृष्ठभूमि के सृजन और स्थानीय समुदायों के साथ राजस्व की साझेदारी पर भी जोर दिया गया है । इसके अतिरिक्त दिशानिर्देशों में ईको पर्यटन क्षेत्रों को चिह्नित करने, जोन आवंटित करने और ईको पर्यटन योजना बनाने की व्यवस्था की गई है जो कि वन/संरक्षित क्षेत्र के लिए अनुमोदित प्रबंधन योजना/कार्य योजना का भाग होगी और ईको-संवेदनशील क्षेत्र के मामले में पर्यटन मास्टर प्लान होगी । इसमें जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी तंत्र को भी व्यवस्था की गई है ।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने ईको पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति भी तैयार की है । कार्यनीति में ईको पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यनीतिक स्तंभों को चिह्नित किया गया है :

- i. राज्य मूल्यांकन और रैंकिंग
- ii. ईको पर्यटन के लिए राज्य कार्यनीति
- iii. आईईसी, क्षमता निर्माण और प्रमाणन
- iv. विपणन और संवर्धन
- v. गंतव्य और उत्पाद विकास
- vi. सार्वजनिक निजी और सामुदायिक भागीदारी
- vii. शासकीय और संस्थागत रूपरेखा
